



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2009/फाल्गुन 4, 1930

No. 337]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2009/PHALGUNA 4, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2009

का.आ. 532(अ).—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, नियम 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र उद्योग के लिए विकास परिषद् की स्थापना करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. श्री धीरेन्द्र शुक्ला, पुत्र श्री चंदन प्रसाद शुक्ला,<br>1303, पंच लीला, एस.एम. शिती स्कूल के समीप, पवई, मुंबई-400076। | —अध्यक्ष    |
| 2. गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई अथवा उनके प्रतिनिधि, जो कार्यपालक निदेशक की रैंक से कम न हो                          | —सदस्य      |
| 3. सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली।  | —सदस्य      |
| 4. वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई।  | —सदस्य सचिव |
| 5. सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।  | —सदस्य      |
| 6. विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, नई दिल्ली।  | —सदस्य      |
| 7. पटसन आयुक्त, भारत सरकार, कोलकाता।  | —सदस्य      |
| 8. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई।  | —सदस्य      |
| 9. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग बैंक, लखनऊ।  | —सदस्य      |
| 10. अध्यक्ष, भारतीय कपास निगम, मुंबई।   | —सदस्य      |
| 11. श्री मधुभाई ठाकोर, पूर्व मंत्रिमंडल सदस्य (गुजरात राज्य), वस्त्रपुर, अहमदाबाद।  | —सदस्य      |
| 12. श्री चौहान अमरसिंह शिवाजी, प्लॉट नं. 407/2, पुलिस चौकी के समीप, सैक्टर 22, गांधी नगर।                                 | —सदस्य      |
| 13. श्री विनजुडा चमनभाई माघाभाई, 84, इन्द्रा नगर, सैक्टर-24, गांधीनगर।  | —सदस्य      |
| 14. श्रीमती मीबाबा छोटूबा वाघेला, बी-46, सुंदरवन सोसायटी, नोबल नगर, डाकघर कुबेर नगर, अहमदाबाद।                            | —सदस्य      |

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 15. | श्री अमृत पाण्डया, 26/679, डा. अंबेडकर कालोनी, अंबावाडी, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 ।     | —सदस्य |
| 16. | श्री महेश वाई. रेड्डी, बी-15, तरंग अपार्टमेंट्स, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली ।     | —सदस्य |
| 17. | श्री सी.आर.नसीर अहमद, पूर्व सदस्य, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग, दावनगेरे ।              | —सदस्य |
| 18. | श्री संजीत कुमार बागडिया, जी-58, सागर टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड, सूरत (गुजरात) ।        | —सदस्य |
| 19. | श्री अक्षय बनाला, 557, ज्ञान विला, चंद्र लोक बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।              | —सदस्य |
| 20. | श्री कमल जायसवाल, 86/182, रायपुरवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।                                | —सदस्य |
| 21. | श्री सामी इकबाल कुरैशी, 44/116, मिश्री बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।                      | —सदस्य |
| 22. | श्री प्रदीप कुमार सिंह, जी-1/103, अरमापुर एस्टेट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश ।              | —सदस्य |
| 23. | डॉ.जी.डी. खान, 34-ए ब्लॉक, दारुल शिफा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।                               | —सदस्य |
| 24. | श्री कुलवंत सिंह सलूजा, बारपली चौक, चंपा-495671, छत्तीसगढ़ ।                              | —सदस्य |
| 25. | श्री सनी शर्मा, पुत्र श्री धर्मवीर शर्मा, ए-118, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110025 । | —सदस्य |

2. परिषद् के कृत्य —परिषद् निम्नलिखित पर विचार करेगी और, केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित सिफारिश करेगी,—

(क) अनुसूचित वस्त्र उद्योग से संबंधित विषयों पर, जिसके परिणामस्वरूप :—

- (i) ऐसे उद्योग की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि;
- (ii) ऐसे उद्योग की सेवाओं में सुधार और विकास;
- (iii) विश्व बाजार में ऐसे उद्योग और उसके उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, और

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन; क्षमता का उपयोग; कच्ची सामग्री की उपलब्धता; उद्योग में लगे हुए या लगाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों का प्रशिक्षण या पुनःप्रशिक्षण; उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान; उत्पादों का मानकीकरण; और आर्थिक योजना के लिए डाटाबेस के विकास के लिए ऐसे उद्योग से आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए उपायों के संबंध में आवश्यक हैं ।

[फा. सं. 1(1)/2005-औ.नी.]

गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

### ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2009

**S.O. 532 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes the Development Council for Textile Industry for a period of two years with effect from the date of publication of this Order and appoints following persons to the Council, namely :—

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Shri Dharendra Shukla, S/o Shri Chandan Prasad Shukla,<br>1303, Panch Leela, Near S.M. Sheety School, Powai, Mumbai-400076. | —Chairman         |
| 2. | Governor of Reserve Bank of India, Mumbai or his Representative not below the rank of Executive Director.                   | —Member           |
| 3. | Secretary to the Government of India, Ministry of Textiles, New Delhi   | —Member           |
| 4. | Textile Commissioner, Government of India, Mumbai   | —Member-Secretary |
| 5. | Advisor, Planning Commission, Government of India, New Delhi  | —Member           |
| 6. | Development Commissioner (Handlooms), Government of India, New Delhi.   | —Member           |
| 7. | Jute Commissioner, Government of India, Kolkata.  | —Member           |
| 8. | Chairman, Industrial Development Bank of India, Mumbai  | —Member           |

9.	Chairman-cum-Managing Director, Small Industries Bank of India, Lucknow.	—Member
10.	Chairman, Cotton Corporation of India, Mumbai.	—Member
11.	Shri Madhubai Thakor, Ex-Cabinet Minister (Gujarat State), Vastrapur, Ahmedabad.	—Member
12.	Shri Chauhan Amarsinh Shivaji, Plot No. 407/2, Near Police Chowki, Sector-22, Gandhinagar.	—Member
13.	Shri Vinzuda Chamanbhai Maghabhai, 84, Indira Nagar, Sector-24, Gandhinagar.	—Member
14.	Smt. Meebaba Chhotuba Vaghela, B-46, Sundervan Society, Noble Nagar, Post Kubernagar, Ahmedabad.	—Member
15.	Shri Amrut Pandya, 26/679, Dr. Ambedkar Colony, Ambawadi, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.	—Member
16.	Shri Mahesh Y. Reddy, B-15, Tarang Apartments, I.P. Extension, Patparganj, Delhi.	—Member
17.	Shri C.R. Naseer Ahmed, Former Member, Karnataka State Minorities Commission, Davangere.	—Member
18.	Shri Sanjeet Kumar Bagaria, G-58, Sagar Textile Market, Ring Road, Surat (Gujarat).	—Member
19.	Shri Akshay Banala, 557, Gyan Villa, Chandra Lok Bagpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.	—Member
20.	Shri Kamal Jaiswal, 86/182, Raipurwa, Kanpur, UP.	—Member
21.	Shri Sami Iqbal Quareshi, 44/116, Misri Bazar, Kanpur, UP.	—Member
22.	Shri Pradeep Kumar Singh, G-1/103, Armapur Estate, Kanpur Nagar, UP.	—Member
23.	Dr. G.D. Khan, 34-A, Block, Darul Shifa, Lucknow, UP.	—Member
24.	Shri Kulwant Singh Saluja, Barpali Chowk, Champa-495671, Chhattisgarh.	—Member
25.	Shri Sunny Sharma, S/o Shri Dharamvir Sharma, A-118, New Friends Colony, New Delhi-110025.	—Member

2. Functions of the Council — The Council shall consider and make recommendations to the Central Government,—

(a) on matters concerning the scheduled textiles industry which lead to :

- (i) the increase in productivity and efficiency of such Industry;
- (ii) improvement and development of the services of such Industry;
- (iii) increase competitiveness of such industry and its products in the global market, and

(b) on measures necessary for technological upgradation; capacity utilization; availability of raw material; training or retraining of persons engaged or proposed to be engaged in the industry; enhanced scientific and technical research; standardization of products; and the collection of statistics from such industry for development of a database for economic planning.

[ F. No. 1 (1)/2005-IP ]

GOPAL KRISHAN, Jt. Secy.